

**M.A. (Part-II) Examination
ECONOMICS
(Economics of Insurance)
Paper—X**

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 100]

- N.B. :—** (1) Attempt all **FIVE** questions.
 (2) All questions carry equal marks.

1. (a) What is Insurance ?
 (b) Explain the importance of insurance.
 (c) Explain the classification of life insurance.
 (d) Explain the legal perspectives of insurance.

OR

- (e) Explain the features of life insurance.
 (f) Discuss the social advantages of insurance.
 (g) Explain the limitations of insurance.
 (h) State the types of general insurance policies.

2. What is risk management ? Explain the pure and speculative risk.

OR

Explain the objectives and functions of IRDA. How IRDA controls the insurance institutions ?

3. (a) Explain the fundamental principles of life insurance.
 (b) Explain the advantages of health insurance policies.
 (c) Explain the classification of risk.
 (d) What are the advantages of group insurance scheme ?

OR

- (e) State the important functions of life insurance.
 (f) State the legal aspects of life insurance.
 (g) Explain the functions of health insurance companies.
 (h) Distinguish between surrender value and paid-up value.

4. (a) Explain the various types of general insurance.
 (b) Write definition of general insurance.
 (c) Explain the concept of insurable interest.
 (d) Discuss the main conditions of fire insurance scheme.

OR

- (e) Explain the functions of General Insurance Corporation of India.
 (f) Explain the concept of equity of common law.
 (g) What do you mean by insurance policy endorsement conditions and warranty ?
 (h) What is the importance of general insurance in economic development ?

5. What are the objectives of estate planning ? How people do their life planning ?

OR

Explain the process of estate planning. What is the purpose of government intervention in insurance markets ?

**M.A. (Part-II) Examination
ECONOMICS
(Economics of Insurance)
Paper—X**

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 100]

(मराठी माध्यम)

- नोट :**— (1) सर्व पाच प्रश्ने आवश्यक आहेत.
 (2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

1. (अ) विमा म्हणजे काय ?
 (ब) विम्याचे महत्व स्पष्ट करा.
 (क) जीवन विम्याचे वर्गीकरण स्पष्ट करा.
 (ड) विम्याची वैधानिक बाजू स्पष्ट करा.

किंवा

- (इ) जीवन विम्याची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा.
 (फ) विम्याच्या सामाजिक फायद्यांची चर्चा करा.
 (ग) विम्याच्या भर्यादा स्पष्ट करा.
 (ह) सामान्य विमा पॉलिसीचे प्रकार सांगा.

2. जोखीम व्यवस्थापन म्हणजे काय ? शुद्ध आणि परिकल्पनिक जोखीम स्पष्ट करा.
 किंवा

आय.आर.डी.ए.ची उद्दिष्टचे व कार्य स्पष्ट करा. आय.आर.डी.ए विमा संस्थांचे नियंत्रण कसे करते ?

3. (अ) आयुर्विम्याची मूलभूत तत्वे स्पष्ट करा.
 (ब) आरोग्य विमा योजनेचे फायदे स्पष्ट करा.
 (क) जोखीमीचे वर्गीकरण स्पष्ट करा.
 (ड) सगूह विमा योजनेचे फायदे कोणते आहेत ?

किंवा

- (इ) आयुर्विमा कंपन्यांची महत्वाची कार्ये सांगा.
 (फ) जीवन विम्याची वैधानिक बाजू स्पष्ट करा.
 (ग) आरोग्य विमा कंपन्यांची कार्ये स्पष्ट करा.
 (ह) समर्पण मूल्य व हप्ता बंद मूल्य यातील फरक स्पष्ट करा.

4. (अ) सामान्य विम्याचे विभिन्न प्रकार स्पष्ट करा.
 (ब) सर्वसामान्य विम्याची व्याख्या लिहा.
 (क) विमा योग्य व्याज संकल्पना स्पष्ट करा.
 (ड) अग्नीविमा पत्राच्या मुख्य अटीची चर्चा करा

किंवा

- (इ) भारतातील सामान्य विमा महामंडळाचे कार्य स्पष्ट करा.
 (फ) समभागाच्या सर्वसामान्य नियमाची संकलना स्पष्ट करा.
 (ग) विमापत्रातील पृष्ठांकन अटी व वारंटी म्हणजे काय ?
 (ह) आर्थिक विकासात सर्व सामान्य विम्याचे महत्व कोणते ?

5. संपत्ती संचयन नियोजनाची कोणती उद्दिष्टचे आहेत ? लोक त्याच्या जीवनचक्राचे नियोजन कसे करतात ?
 किंवा

गालमता नेयोजनाची प्रक्रिया स्पष्ट करा. विमा बऱ्झारात सरकारी हक्तधेपाचा हेतू कोणता आहे ?

**M.A. (Part-II) Examination
ECONOMICS
(Economics of Insurance)
Paper—X**

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 100]

(हिन्दी माध्यम)

- नोट :-** (1) सभी पाँच प्रश्न अनिवार्य हैं।
 (2) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
1. (अ) बीमा का आशय क्या है ?
 (ब) बीमा का महत्व स्पष्ट कीजिए।
 (क) जीवन बीमा का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए।
 (ड) बीमा की वैधानिक बाजू स्पष्ट कीजिए।

अथवा

- (इ) जीवन बीमा की विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए।
 (फ) बीमा के सामाजिक लाभों की चर्चा कीजिए।
 (ग) बीमा की मर्यादाएँ स्पष्ट कीजिए।
 (ह) सामान्य बीमा पालिसि के प्रकार बताइए।
2. जोखीम व्यवस्थापन क्या है ? शुद्ध और परिकल्पन जोखीम स्पष्ट कीजिए।

अथवा

- आय.आर.डी.ए. के उद्देश्य और कार्य स्पष्ट कीजिए। आय.आर.डी.ए. बीमा संस्थाओं का नियंत्रण कैसे करता है ?
3. (अ) आयुर्बीमा के मूलभूत तत्वों को स्पष्ट कीजिए।
 (ब) आरोग्य बीमा योजना के लाभ स्पष्ट कीजिए।
 (क) जोखीम का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए।
 (ड) समूह बीमा योजना के लाभ कौन से हैं ?

अथवा

- (इ) आयुर्बीमा कंपनियों के महत्वपूर्ण कार्य बताइए।
 (फ) जीवन बीमा की वैधानिक बाजू स्पष्ट कीजिए।
 (ग) आरोग्य बीमा कंपनियों के कार्य स्पष्ट कीजिए।
 (ह) समर्पण मूल्य और हप्ताबंद मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए।
4. (अ) सामान्य बीमा के विभिन्न प्रकार स्पष्ट कीजिए।
 (ब) सर्वसामान्य बीमा की व्याख्या लिखिए।
 (क) बीमा योग्य ब्याज की संकल्पना स्पष्ट कीजिए।
 (ड) आग बीमा-पत्र की प्रमुख शर्तों की चर्चा कीजिए।

अथवा

- (इ) भारत के सामान्य बीमा महानिगम के कार्य स्पष्ट कीजिए।
 (फ) समभाग के सर्वसामान्य नियमों की संकल्पना स्पष्ट कीजिए।
 (ग) बीमा-पत्र की पृष्ठांकन शर्त और वारंटी क्या हैं ?
 (ह) आर्थिक विकास में सर्वसामान्य बीमा का महत्व कौन-सा है ?
5. संपत्ति संचयन नियोजन का कौन-सा उद्देश्य है ? लोग उनका जीवनचक्र का नियोजन कैसे करते हैं ?

अथवा

मालमत्ता नियोजन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। बीमा बाजार में सरकारी हस्तक्षेप का हेतु कौनसा है ?

